



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2005/चैत्र 9, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2005/CHAITRA 9, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2005

आय-कर

का.मा. 456(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम 1962 में,-

(क) भाग 6 के नियम 37 की सारणी में क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ (1) में 'और "यूनिटों की बाबत आय" में से धारा 194ट के अधीन' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर " "यूनिटों की बाबत आय" में से धारा 194ट के अधीन और "कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय" में से धारा 194ठक के अधीन' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) परिशिष्ट 2 में,-

(i) प्ररूप सं. 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ प्ररूप सं. 24

(धारा 192 और नियम 37 देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अधीन, 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

“वेतन” की वार्षिक विवरणी

1.(क) कर कटौती खाता सं.

(ख) स्थायी खाता सं.

2.(क) नियोजक का नाम

(ख) नियोजक का प्रकार

(ग) नियोजक का पता

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन का नाम

मार्ग/गली/लेन

क्षेत्र/परिक्षेत्र

नगर/शहर/जिला

राज्य

पिन कोड

3. * क्या पिछली विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् नियोजक/वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पता बदल गया है ? जो लागू हो उसपर सही का निशान लगाएं

नियोजक हां नहीं वेतन के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हां नहीं

* यदि पता बदल गया है तो स्तंभ 2(अ)/4(ख) में बदला हुआ पता दें।

4.(क) वेतन का संदाय करने

के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का

नाम (यदि वह नियोजक
नहीं है)
(ख) वेतन का संदाय करने
के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का
पता

फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन का नाम

मार्ग/गली/लेन

क्षेत्र/पश्चिम

नगर/शहर/जिला

राज्य

पिन कोड

5. संदत्त वेतन और उस पर कर्मचारी की ओर से काटे गए कर के ब्यौरे

	201	क्रम संख्यांक
	202	कर्मचारी का स्थायी खाता संख्यांक(पेन)
	203	कर्मचारी का नाम
	204	वह अवधि जिसके लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित था
		तारीख से तारीख तक
	205	वेतन की कुल रकम, उन रकमों को छोड़कर जो स्तंभ 206 और 207 में दिखाई जानी अपेक्षित है (टिप्पण 4 देखिए)

	206	मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों की उस सीमा तक कुल रकम जो कर से प्रभार्य है, [नियम 2क के साथ पठित धारा 10 (13क) और धारा 10(14) देखिए]
	207	परिलब्धियों का मूल्य और कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में उपाबंध के अनुसार संकलित राशि
	208	भत्तों और परिलब्धियों की रकम जिसका छूट के रूप दावा किया गया है और जिन्हें स्तंभ 206 और 207 में सम्मिलित नहीं किया गया है
	209	स्तंभ 205, 206 और 207 का योग
	210	धारा 16(i), 16(ii) और 16(iii) के अधीन कुल कटौतियां (प्रत्येक कटौती पृथकतः विनिर्दिष्ट करें)
	211	“ वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (स्तंभ 209 में से स्तंभ 210 घटाएं)
	212	टी.डी.एस [धारा 192(2ख)] के लिए आफर की गई “ वेतन” शीर्ष के अधीन आय से भिन्न किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय (जिसके अंतर्गत मकान संपत्ति से हानि भी है)
	213	सकल कुल आय (स्तंभ 211 और 212 का योग)
	214	कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं को दिए गए दान की बाबत धारा 80छ के अधीन कटौती योग्य रकम
	215	संदत्त किराए की बाबत धारा 80छछ के अधीन कटौती योग्य रकम
	216	अध्याय 6-क के किन्हीं अन्य उपबंध के अधीन कटौती योग्य रकम (सुसंगत धारा और कटौती की गई रकम का उल्लेख करें)

	217	अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम (स्तंभ 214, 215 और 216 का योग)
	218	कराधेय कुल आय (स्तंभ 213 में से स्तंभ 217 घटाएं)
	219	कुल आय पर आय-कर
	220	जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि आदि में अभिदाय पर धारा 88 के अधीन आय कर रिबेट (टिप्पण 5 देखिए)
	221	धारा 88ख के अधीन आय-कर रिबेट
	222	धारा 88ग के अधीन आय-कर रिबेट
	223	धारा 88घ के अधीन आय-कर रिबेट
	224	संदेय कुल आय-कर (स्तंभ 219 में से स्तंभ 220, स्तंभ 221, स्तंभ 222 और स्तंभ 223 का योग घटाएं) अधिभार और शिक्षा उपकर सहित
	225	धारा 89 के अधीन आय-कर राहत, जब वेतन आदि का संदाय बकाया अथवा अग्रिम के रूप में किया गया हो
	226	संदेय कुल आय-कर (स्तंभ 224 में से स्तंभ 225 को घटाएं)
	227	स्रोत पर काटा गया कर - आय-कर
	228	अधिभार
	229	शिक्षा उपकर
	230	स्रोत पर काटा गया कुल आय-कर (स्तंभ 227, स्तंभ 228 और स्तंभ 229 का योग)
	231	संदेय/प्रतिदेय कर (स्तंभ 226 और 230 का अंतर)

	232	टिप्पणियां (टिप्पण 6 और 7 देखिए)
--	-----	----------------------------------

6. कटौती किए गए और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का विवरण

[illegible]

7. मैं प्रमाणित करता हूँ कि :

(i) उपर्युक्त विवरणी में से तक क्रम संख्यांकित पृष्ठ हैं और इसमें सभी (संख्या दीजिए) कर्मचारियों की बाबत विहित प्रविष्टियां दी गई हैं ।

(ii) उपर्युक्त विवरणी में द्वारा उन सभी व्यक्तियों को संदत्त “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य कुल रकम के पूर्ण व्यौरे हैं जिनकी “वेतन” शीर्ष के अधीन उस वर्ष की आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस वर्ष के वित्त अधिनियम के अधीन कराधेय नहीं है।

(iii) स्तंभ 230 में दर्शाई गई कर की रकम केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी गई है और उसकी प्रविष्टियां मद संख्या 6 में ऊपर दी गई हैं।

(iv) विवरणी और उपाबंध में दी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं।

स्थान

तारीख

नियोजक/वेतन का भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर.....

पदनाम

टिप्पण :

1. नियोजक के प्रकार के बारे में बताएं “सरकार/अन्य”।
2. सरकारी कटौतीकर्ता द्वारा अंतरण वाउचरों का विवरण दिया जाना चाहिए; अन्य कटौतीकर्ताओं को बैंक में निक्षेप की बाबत चालान सं. का विवरण देना चाहिए।
3. स्तंभ केवल सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए सुसंगत है।
4. वेतन के अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान, फीस, कमीशन, बोनस अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन निक्षिप्त रकम का प्रतिदाय या वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त लाभ जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में दिए गए संदाय, वेतन का अग्रिम संदाय या वेतन” शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां भी हैं।
5. जहां नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायों का उसकी ओर से संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरणी में शामिल किए जाने चाहिए।
6. जहां धारा 197 (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर कर की कटौती निम्नतर दर पर की गई है या कर की कटौती ही नहीं की गई है वहां उसका उल्लेख इस स्तंभ में किया जाना चाहिए और इस विवरणी के साथ उस आदेश की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
7. कृपया प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्येक स्तंभ का योग दर्ज करें।

उपाबंध

31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में परिलब्धियों के मूल्य और कर्मचारी भविष्य निधि खाते में अनुवृद्धि की रकमों की विशिष्टियां

	(245)	कर्मचारी का नाम		
	(246)	प्ररूप सं. 24 के स्तंभ 201 में कर्मचारी की क्रम संख्या		
	(247)	जहां वास सुविधा असुसज्जित है		नियोजक द्वारा
	(248)	वास सुविधा असुसज्जित होने की दशा में मूल्य	जहां वास सुविधा सुसज्जित है ।	दी गई किराया मुक्त - वास सुविधा का मूल्य या वास सुविधा के लिए किराए में दी गई रियायत का मूल्य (संगणना का आधार दीजिए)
	(249)	फर्नीचर (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, गृहस्थी के अन्य साधित्र और वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर भी हैं) की लागत		
	(250)	फर्नीचर का परिलब्धि मूल्य (स्तंभ 249 का 10 प्रतिशत)		
	(251)	स्तंभ 248 और 250 का योग		
	(252)	कर्मचारी द्वारा संदत्त किराया, यदि कोई है		
	(253)	परिलब्धियों का मूल्य (यथा लागू स्तंभ 247 में से स्तंभ 252 घटाकर या स्तंभ 251 में से स्तंभ 252 घटाकर)		
	(254)	जहां नियोजक द्वारा कोई वाहन या रियायती दर पर दिया गया है मुफ्त या जहां कर्मचारी को नियोजक के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा किराए पर ली गई एक या अधिक मोटरकारों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई है या जहां नियोजक कर्मचारी के स्वामित्व वाली		

		मोटरकार के चालू खर्च उपगत करता है, वहां ऐसी परिलब्धियों का अनुमानित मूल्य (ब्यौरे दीजिए)		
	(255)	कर्मचारी को दी गई घरेलू और वैयक्तिक सेवाओं के लिए नियोजक द्वारा संदत्त पारिश्रमिक (ब्यौरे दीजिए)		
	(256)	गृह छुट्टी के समय, मुफ्त यात्रा के लिए या रियायत की दरों पर यात्रा व्ययों का और अन्य यात्रा का मूल्य उस सीमा तक जहां तक आय कर से प्रभार्य हैं (ब्यौरे दीजिए)		
	(257)	नियोजक द्वारा मुफ्त या रियायती दरों पर दिए गए ऐसे फायदे या सुविधाओं का अनुमानित मूल्य जो पूर्ववर्ती स्तंभों में सम्मिलित नहीं की गई हैं (ब्यौरे दीजिए)		
	(258)	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय जो कर्मचारी के वेतन के 12 प्रतिशत से अधिक है		
	(259)	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में निर्धारिती के खाते में जमा की गई ब्याज की रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत दर से अधिक है		
	(260)	स्तंभ 253 से 259 तक का योग जो प्ररूप सं. 24 के स्तंभ 207 में ले जाया गया		

स्थान

तारीख

नियोजक/वेतन का भुगतान करने के लिए
उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

(ii) प्ररूप सं. 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप सं. 26

(धारा 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194ङङ, 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ,
194टक और नियम 37 देखिए)

31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए “वेतन” से भिन्न सभी संदायों की वास्तव आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अधीन कर की कटौती की वार्षिक विवरणी

1. कर की कटौती करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) पता : फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं./परिसर/भवन/

सड़क/स्ट्रीट/लेन/क्षेत्र/परिक्षेत्र/नगर/जिला/शहर/राज्य का नाम

(ग) कर कटौती खाता सं.

(घ) स्थायी खाता सं.

2. क्या कर कटौती करने वाले व्यक्ति का पता बदल गया है¹, जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं
हां नहीं

3. नियम 30 के साथ पठित धारा 204 के अर्थान्तर्गत यथापरिभाषित प्रास्थिति जो लागू हो उस पर सही
का निशान लगाएं : केन्द्रीय सरकार अन्य

(क) कृपया उस वर्ष के दौरान जिससे आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आपके द्वारा स्रोत पर कटौती किया जाना अपेक्षित है, किए गए संदाय (“ वेतन” से भिन्न) की धारा और प्रकार उल्लिखित करने वाले नीचे कोष्ठों पर सही का निशान लगाएं

193 194 194क 194ख 194खख 194ग 194घ 194ङङ 194च 194छ 194ज 194झ 194ञ 194टक

(ख) कृपया ऊपर मद (क) में उपदर्शित संदाय के प्रत्येक प्रकार जैसे ब्याज, किराया, कमीशन आदि, के लिए संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार पृथक् उपबंधों में सूचना दें

4. काटे गए और केन्द्रीय सरकार के खाते में सदातः कर के ब्यौरे

क्रम सं.	घारा कोड	स्रोत पर कर कटौती रु.	अधिभार रु.	शिक्षा उपकर रु.	ब्याज रु.	अन्य रु.	कुल निक्षेपित कर रु. (3 + 4 + 5 + 6 + 7)	चेक/मांग सं. (यदि कोई हो)	बीएसआर कोड	करनिक्षेप की तारीख	अंतरण बाउचर /चालान क्रम सं.	क्या स्रोत पर कर कटौती पुस्तक प्रविष्टि द्वारा निक्षेप की गई है हां/नहीं
(095)	(096)	(097)	(098)	(099)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान

तारीख

सत्यापन

स्रोत पर कटौती करने के लिए

उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्रोत पर कटौती करने के लिए

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और

पदनाम

टिप्पण :

1. * यदि पता बदल गया है तो स्तंभ 1(ख) में बदला हुआ पता दें।
2. जहाँ सरकार द्वारा या उसकी ओर से कटौती की जाती है, वहाँ अंतरण वाउचरों की विशिष्टियाँ दें ; अन्य कटौतियों के संबंध में बैंक में निक्षेप किए जाने के संबंध में चालान सं. की विशिष्टियाँ दें।
3. स्तंभ केवल सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए सुसंगत है।

उपाबंध-१.१

वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त/जमा खाते^१ के और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा^२ के अधीन स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे :-

जिस व्यक्ति की कटौती की गई है उसका कोड ^३	जिस व्यक्ति की कटौती की गई उसका स्थायी खाता सं. (पैन)	जिस व्यक्ति की कटौती की गई उसका नाम और पता (यदि पैन का उल्लेख किया जाता है तो पता देने की आवश्यकता नहीं है)	संदाय की रकम (रुपए)	वह जिसको रकम संदत्त/जमा की गई	पुस्तक प्रविष्टि या अन्यथा द्वारा संदत्त ^४	वह जिसपर कर की कटौती की गई	कटौती किए गए कर की रकम (रुपए)	वह तारीख जिसको कर की कटौती की गई	बैंक शाखा कोड ^५	वह तारीख जिसको संस्कार के खाते में कर संदत्त किया गया	बैंक द्वारा दी गई चालान सं.	कर कटौती प्रमाणपत्र देने की तारीख	कर की कटौती न करने/कम कटौती के लिए कारण, यदि कोई हो ^६
108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

टिप्पण--

- (1) कृपया संदाय की प्रकृति जैसे ब्याज, किराया, संविदा संदाय आदि का उल्लेख करें।
- (2) कृपया भिन्न-भिन्न धाराओं के अधीन की गई कटौतियों के लिए पृथक उपाबंधों का उपयोग करें।

- (3) जिसकी कटौती की गई है, कृपया उसका कोड दर्ज करें । कंपनियों के लिए 01; कंपनियों से भिन्न के लिए 02
- (4) यदि पुस्तक प्रविष्टि द्वारा संदाय किया गया है तो ख लिखें अन्यथा के लिए ग लिखें ।
- (5) जहां सरकार द्वारा या उसकी ओर से कटौती की जाती है, वहां स्तंभ (10) में अंतरण बाउचर सं. दर्ज की जाए ।
- (6) यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के कारण “कम कटौती” या “कोई कटौती नहीं है” तो “क” लिखें ।

यदि धारा 197क के अधीन घोषणा के कारण कोई कटौती नहीं है तो “ख” लिखें

- (7) यदि आवश्यक हो, कृपया उपरोक्त फॉर्मेट में संदाय के पूरे ब्यौरे देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग करें ।

कृपया सभी पृष्ठों पर चालू क्रम संख्यांक दें

स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

(iii) प्ररूप सं. 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ प्ररूप सं. 27

(नियम 37क देखिए)

(i) को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कंपनियों से भिन्न उन व्यक्तियों को, जो अनिवासी या निवासी हैं, किन्तु मामूली तौर पर निवासी नहीं हैं, और (ii) उन कंपनियों को जो न तो भारतीय कंपनियां हैं और न ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में लाभान्शों की घोषणा और उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं, संदेय ब्याज, लाभान्श या अन्य किसी राशि से कर कटौती की, विवरणी

1. कर कटौती करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) पता : फ्लैट / मकान / ब्लाक सं.

परिसर / भवन /

मार्ग / गली / लेन /

क्षेत्र / पक्षेत्र / नगर /

जिला / शहर / राज्य का नाम

पिन कोड

(ग) कर कटौती खाता संख्या

(घ) स्थाई खाता संख्या

2. क्या कर कटौती करने वाले व्यक्ति का पता बदल गया है ? जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं हां नहीं

3. नियम 30 के साथ पठित धारा 204 के अर्थान्तर्गत यथा परिभाषित हैसियत जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं

केन्द्रीय सरकार अन्य

(क) कृपया नीचे बाक्स में धारा और उस वर्ष के दौरान किए गए संदाय ("वेतन" से भिन्न) का प्रकार उपदर्शित करते हुए टिक करें जिससे आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आपके द्वारा स्रोत पर कटौती की जानी अपेक्षित थी

194ड 195 196क 196ख 196ग 196घ

(ख) कृपया प्रत्येक प्रकार के संदाय के लिए जो ऊपर मद (क) में उपदर्शित हैं अर्थात् ब्याज, लाभांश, आदि जिनके अंतर्गत ऐसे संदाय भी हैं जिन पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर कोई कर कटौती नहीं की गई है, संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार पृथक उपाबंधों में जानकारी प्रस्तुत करें।

4. कर कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में किए गए संदाय के बारे

क्रम सं.	धारा कोड	स्रोत पर कर कटौती रु.	अधिभार रु.	शिक्षा उपकर रु.	ब्याज रु.	अन्य रु.	कुल निक्षेपित (3+4+5+6+7)	चेक/मांग ड्राफ्ट सं. (यदि कोई हो)	बीएसआर कोड	कर निक्षेप की तारीख	अंतरण बाउचर/चालान, क्रम सं.	क्या स्रोत पर कर कटौती प्रविष्टि द्वारा निक्षेप की गई है हां/नहीं
(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

उपाबंध - ..

वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त / जमा की गई¹ का और आय-कर अधिनियम, 1962 की धारा² के अधीन खोले पर कर कटौती का ब्यौरा

जिस व्यक्ति की कटौती की गई है उसका कोड ¹	जिस व्यक्ति की कटौती की गई है उसका स्थायी खाता सं. (पीएन)	जिस व्यक्ति की कटौती की गई है उसका नाम और पता (यदि स्थायी खाता सं. दिया गया है तो पता देने की आवश्यकता नहीं है)	कर कटौती की रकम से पूर्व संदेय रकम	वह जिसको रकम संदत्त/ जमा की गई है	वह जिस पर कर काटा गया है	क्या संकलन किया जाना अपेक्षित है ⁴	कर कटौती की रकम (रुपयों में)	वह तारीख जिसको कर कटौती की गई है	बैंक शाखा कोड ⁵	वह जिसको सरकार के खाते में कर का संदाय किया गया	बैंक द्वारा दिया गया चालान सं.	कर कटौती प्रमाणपत्र देने की तारीख	कटौती नहीं करने या कम कटौती करने के लिए कारण, यदि कोई हो
(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575,	(576)	(577)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

टिप्पण -

1. कृपया संदाय की प्रकृति अर्थात् ब्याज, लाभांश का उल्लेख करें।
2. कृपया भिन्न-भिन्न धाराओं के अधीन की गई कटौतियों के लिए पृथक् उपाबंध का उपयोग करें।

3. कृपया ऐसी कंपनियों के लिए जिनकी कटौती की गई है, कोड 01 और कंपनियों से भिन्न के लिए 02 लिखें ।
4. 'सकारात्मक' के लिए 'हां' और 'नकारात्मक' के लिए 'नहीं' लिखें ।
5. जहां सरकार द्वारा या उसकी ओर से कटौती की गई है वहां अंतरण वाउचर सं. स्तंभ (10) में प्रविष्ट किया जाएगा ।
6. यदि कटौती कम दर के आधार पर की गई है या धारा 197 या धारा 195 के अधीन प्रमाणपत्र के कारण कोई कर कटौती नहीं की गई है वहां 'क' लिखें या यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र के कारण ऐसा किया गया है वहां 'ख' लिखें ।
7. यदि आवश्यक हो तो कृपया उपरोक्त प्ररूप में संदाय के पूरे विवरण देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग करें । कृपया सभी पृष्ठों पर लगातार क्रम संख्यांक भी दें ।

स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

(iv) प्ररूप सं. 27ड के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ प्ररूप सं. 27ड

(धारा 206ग और नियम 37ड देखिए)

..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संग्रहण की बाबत आय-कर

अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन कर के संग्रहण की वार्षिक विवरणी

1. विक्रेता की विशिष्टियां

(क) विक्रेता का नाम

(ख) पता : फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.

परिसर/भवन/

मार्ग/गली/लेन/

क्षेत्र/परिक्षेत्र/

नगर/शहर/जिला/राज्य का नाम

पिन कोड

(ग) कर संग्रहण खाता संख्यांक

(घ) स्थायी खाता संख्यांक

2. क्या विक्रेता के पते में परिवर्तन हुआ है¹ जो लागू हो सही का निशान लगाएं

हां नहीं

3.(क) उस छमाही के दौरान जिसमें आपके द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत किया जाना अपेक्षित था, किए गए संग्रहण को उपदर्शित करते हुए नीचे बक्शों में सही का निशान लगाएं

(क) मानव उपभोग के लिए अल्कोहालिक लिकर

(ख) वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ

(ग) वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी पद्धति द्वारा अभिप्राप्त काष्ठ

(घ) कोई अन्य वन उत्पाद जो काष्ठ या तेंदू पत्ता नहीं है

(ङ) स्क्रेप

(च) पैकिंग लॉट

(छ) टॉल प्लाजा

(ज) खनन और उत्खनन

(ख) कृपया उम्पर मद (क) में उपदर्शित संग्रहण के प्रत्येक प्रकार के लिए संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार पृथक-पृथक उपाबंधों में सूचना दें

4. संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कर के ब्यौरे

क्रम सं.	उपर्युक्त क्रम सं. 3 के अनुसार संग्रहण कोड	स्रोत पर कर कटौती रु.	अधिभार रु.	शिक्षा उपकर रु.	व्याज रु.	अन्य रु.	कुल निक्षेपित कर रु. (3+4+5+6+7)	चेक/मांग ड्राफ्ट सं. (यदि कोई हो)	बीएसआर कोड	कर निक्षेप की तारीख	अंतरण बाउचर/चालान, क्रम सं.	क्या स्रोत पर कर कटौती प्रविष्टि निक्षेप की गई है? हां/नहीं
(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

सत्यापन

में प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :

1. यदि पता बदल गया है तो स्तंभ 1(ख) में बदला हुआ पता दें।
2. जहाँ सरकार द्वारा या उसकी ओर से संग्रहण किया जाता है, वहाँ अंतरण बाउचरों की विशिष्टियाँ दें ; अन्य कटौती करने वाले की दशा में बैंक में निक्षेप किए जाने के संबंध में चालान सं. की विशिष्टियाँ दें।
3. स्तंभ केवल सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए सुसंगत है।

उपाबंध - १००

..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नामे खाते/प्राप्त किए गए¹ क्रय कीमत और स्रोत पर संगृहीत² कर के ब्यौरे

क्रेता का कोड ³	उस व्यक्ति का स्थायी खाता सं. जिससे कर संगृहीत किया गया है	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे कर संगृहीत किया गया है (यदि पेन सं. दिया गया है तो पता देने की आवश्यकता नहीं है)	क्रय का कुल मूल्य	संदाय की रकम (रु.)	वह तारीख जिसको संदत्त गई/नामे डाली गई	वह तारीख जिसपर कर संगृहीत किया गया	संगृहीत कर की रकम (रु.)	वह तारीख जिसको कर संगृहीत किया गया	वह तारीख जिसको कर संगृहीत किया गया	बैंक शाखा कोड	बैंक द्वारा दिया गया चालान सं.	कर संग्रहण प्रमाणपत्र देने की तारीख	कर संग्रहण प्रमाणपत्र देने की तारीख	असंग्रहण/कर संग्रहण का कारण
(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(627)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)

टिप्पण -

1. कृपया लिखें

(अ) मानव उपयोग के लिए अल्कोहलिक लिंकर

(आ) वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ

(इ) वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी अन्य पद्धति द्वारा अभिप्राप्त काष्ठ

(ई) कोई अन्य वन उत्पाद जो काष्ठ या तैलू पत्ता नहीं है ।

(उ) स्क्रेप

(ऊ) पैकिंग लोट

(ए) टॉल प्लाजा

(ऐ) खनन और उत्खनन

2. कृपया संग्रहण के प्रत्येक प्रकार के लिए पृथक उपाबंधों का उपयोग करें ।

3. कृपया “कंपनियों के लिए” क्रैता कोड 01 और “कंपनियों से भिन्न” के लिए 02 प्रविष्टि करें ।

4. जहां संग्रहण सरकार द्वारा या उसकी ओर से किया जाता है वहां अंतरण वाउचर सं. की प्रविष्टि स्तंभ (9) में की जा सकेगी

5. यदि कम संग्रहण धारा 206ग(9) के अनुसार है तो एक्स (x) लिखें । अन्य किसी कारण के लिए वाई (y) लिखें और पृथक शीट में ब्यौरे दें ।

6. यदि आवश्यक हो, कृपया उपर्युक्त फार्मेट में संग्रहण का पूर्ण ब्यौरा देने के लिए अतिरिक्त शीटों का उपयोग करें । कृपया सभी पृष्ठों को निरन्तर क्रम संख्यांक भी दें ।

स्रोत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी

व्यक्ति का नाम और पदनाम

(ग) भाग 6-क में नियम 37ड के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :---

“धारा 206ग (5क) के अधीन स्रोत पर संगृहीत कर के संबंध में विहित विवरणियां

37ड धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी वित्त वर्ष की बाबत आगामी वित्त वर्ष के जून की समाप्ति तक प्ररूप सं 27ड में कर संग्रहण के लिए विवरणी नियम 37च में निर्दिष्ट आय कर अधिकारी को परिदत्त करेगा या कराएगा।”

[अधिसूचना सं. 124/2005/फा. सं. 149/87/2004-टीपीएल]

ए. श्रीनिवास राव, अवर सचिव (टी.पी.एल.-III)

टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम संशोधन आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2005 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 441(अ), तारीख 29 मार्च, 2005 के तहत किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2005

INCOME-TAX

S.O. 456(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Eleventh Amendment) Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962,-
 - (a) in Part VI, in rule 37, in the Table, against serial number 2, in column (1), for the words, figures and letter and under section 194K from “Income in respect of units”, the words, figures and letters under section 194K from “Income in respect of units” and under section 194LA from “Payment of compensation on acquisition of certain immovable property” shall be substituted;
 - (b) in Appendix II,-
 - (i) for Form No.24, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 24

[See section 192 and rule 37]

Annual return of "Salaries" under Section 206 of the Income-tax Act, 1961 for the year ending 31st March

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 1. (a) | Tax Deduction Account No. | <div></div> |
| (b) | Permanent Account No. | <div></div> |
| 2. (a) | Name of the Employer | <div></div> |
| (b) | Types of Employer ¹ | <div></div> |
| (c) | Address of the Employer
Flat/Door/ Block Number | <div></div> |
| | Name of the Premises/Building | <div></div> |
| | Road/Street/Lane | <div></div> |
| | Area/Locality | <div></div> |
| | Town/City/District | <div></div> |
| | State | <div></div> |
| | Pin Code | <div></div> |

- 3.* Has address of the employer/person responsible for paying salary changed since filing the last return Tick (✓) as applicable

Employer Yes ☐ No ☐

Person Responsible for paying salary Yes ☐ No ☐

4. (a) Name of the person responsible for paying salary (if not the employer)

- (b) Address of the person responsible for paying salary

Flat/Door/Block Number

Name of the Premises/Building

Road/Street/Lane

Area/Locality

Town/City/District

State

Pin Code

*If address has changed give changed address in column 2(c)/4(b)

[illegible]

	(214)	Amount deductible under section 80G in respect of donations to certain funds, charitable institutions.
	(215)	Amount deductible under section 80GG in respect of rents paid
	(216)	Amount deductible under any other provision of Chapter VI-A (indicate relevant section and amount deducted)
	(217)	Total amount deductible under Chapter VI-A (Total of columns 214, 215 and 216)
	(218)	Total taxable income (Column 213 minus column 217)
	(219)	Income-tax on total income
	(220)	Income tax rebate under section 88 on life insurance premium, contribution to provident fund etc. (See note 5)
	(221)	Income Tax Rebate under section 88B
	(222)	Income Tax Rebate under section 88C
	(223)	Income Tax Rebate under section 88D
	(224)	Total income-tax payable (column 219 minus total of columns 220, 221, 222 and 223 including surcharge and education cess.
	(225)	Income tax relief under section 89, when salary etc. is paid in arrear or in advance
	(226)	Net tax payable (column 224 minus column 225)
	(227)	Tax deducted at source-Income Tax
	(228)	Surcharge
	(229)	Education cess
	(230)	Total income -tax deducted at source (Total of columns 227, 228 and 229)
	(231)	Tax payable/refundable (Difference of columns 226 and 230)
	(232)	Remarks (See Notes 6 and 7)

1. Indicate the type of employer "Government/Others".
2. Government deductors to give particulars of transfer vouchers; other deductors to give particulars of challen No. regarding deposit into bank.
3. Column is relevant only for Government deductors.
4. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity, fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974, or profits in lieu of or in addition to salary or wages, including payments made at or in connection with termination of employment advance of salary or any other sums chargeable to income-tax under the head "Salaries".
5. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the return.
6. Where tax has been deducted at a lower rate or no tax has been deducted on the basis of a certificate given by the Assessing Officer under section 197(1), this should be indicated in this column and a copy of such order should be attached along with the return.
7. Please record on every page the totals of each of the columns.

ANNEXURE

Particulars of value of perquisites and amount of accretion to Employee's Provident Fund Account for the year ending 31st March

Name of Employee Employee Serial No. in Column 201 of Form No. 24	Value of rent-free accomodation or value of any concession in rent for the accomodation provided by the employer (give basis of computation)							
	Where accom- modation is unfurnished	Where accomodation is furnished				Rent if any, paid by the employee	Value of perquisite (Column 247 minus Column 252 or Column 251 minus Column 252, as may be applicable)	
		Value as if accommoda- tion is unfurnished	Cost of furniture (including TV sets, radio sets, refrigerators, other house- hold appliances and air-condi- tioning plant or equipment)	Perquisite value offurni- ture (10% of Column 249)	Total of Columns 248 and 250			
(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)

Where any conveyance has been provided by the employer free or at a concessional rate or where the employee is allowed the use of one or more motor-cars owned or hired by the employer or where the employer incurs the running expenses of a motor-car owned by employees estimated value of perquisite (give details)	Remuneration paid by the employer for domestic and personal services provided to the employee (give details)	Value of free or concessional passages on home leave and other travelling to the extent chargeable to tax (give details)	Estimated value of any other benefit or amenity provided by the employer free of cost or at concessional rate not included in the preceding columns (give details)	Employer's contribution of recognised provident fund in excess of 12% of the employee's salary	Interest credited to the assessee's account in recognised provident fund in excess of the rate fixed by Central Government	Total of Columns 253 to 259 carried to Column 207 of Form No. 24
(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)

Place

Date

Name and Signature of the employer/person responsible for paying salary
Designation :

(ii) for Form No. 26, the following form shall be substituted, namely :—

“FORM NO. 26

(See Sections 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194LA and rule 37)
Annual Return of deduction of tax under section 206 of I.T. Act, 1961 in respect of all payments other than "Salaries" for the year ending 31st March

1. Particulars of the person making deduction of tax

(a) Name	(b) Address - Flat / Door/ Block No.
Name of Premises / Building/ Road / Street / Lane Area / Locality / Town / District / City State	PIN

- (c) Tax Deduction Account Number
- (d) Permanent Account Number

[illegible]

2. Has address of the person making deduction of tax changed ¹
3. Status as defined within the meaning of Section 204 read with R

Has address of the person making deduction of tax changed ¹ ☒ Yes ☐ No ☐ Others ☐

Status as defined within the meaning of Section 204 read with Rule 30 ☒ as applicable ☐ Central Govt. ☐ Others ☐

(a) Please tick the boxes below indicating the section and type of payment (other than "Salaries") made during the year from which tax was required to be deducted at source by you under the Income Tax Act, 1961.

193 194 194A 194B 194C 194D 194E 194F 194G 194H 194I 194J 194LA

- (b) Please furnish information in separate Annexures as per the enclosed proforma for each type of payment indicated in item (a) above viz,
Interest, rent, commission etc.

- #### 4. Details of tax deducted and paid to the credit of the Central Government

S.No.	Section code	TDS Rs.	Surcharge Rs.	Education Cess Rs.	Interest Rs.	Others Rs.	Total tax deposited Rs. (3+4+5+6+7)	Cheque / DD No. (if any)	BSR Code	Date on which tax deposited	Transfer voucher / Challan serial Number ²	Whether TDS deposited by book entry? Yes/ ³ No ³
(95)	(096)	(97) (2)	(98) (4)	(99) (5)	(100) (6)	(101) (7)	(102) (8)	(103) (9)	(104) (10)	(105) (11)	(106) (12)	(107) (13)

Notes :-

- 1 Please state the nature of payment viz. interest, rent, contract payment etc.
- 2 Please use separate Annexures for deductions made under different Sections.
- 3 Please enter Deductee Code 01 for companies, 02 for 'other than companies'.
- 4 Write B if paid by book entry, write C otherwise.
- 5 Where deduction is made by or on behalf of the Government, transfer voucher number may be entered in column (10).
- 6 Write A if the 'lower deduction' or 'no deduction' is on account of a certificate under Section 197.
Write B if no deduction is on account of declaration under Section 197A.
- 7 If necessary please use additional sheets to give full details of payment in the above format. Please also give running serial number to all pages.

Signature of person responsible for deducting tax at source _____

Name and designation of person responsible for deducting tax at source _____

[illegible]

(iv) for Form No. 27E, the following form shall be substituted, namely :—

"FORM NO. 27E

(See Section 206C and rule 37E)

Annual Return of collection of tax under section 206C of I.T. Act, 1961 in respect of collections for the period ending

1. Particulars of Seller

(a) Name of Seller

(b) Address : Flat / Door/ Block No.

Name of Premises / Building/

Road / Street / Lane

Area / Locality /

Town / District / City

State

(c) TAN

(d) PAN

Has address of the seller changed

Tick ☒ as applicable Yes ☐ No ☐

3. (a) Please tick the boxes below indicating the collection made during the half year from which tax was required to be collected at source by you under the Income Tax Act, 1961.

- ☐ A Alcoholic liquor for human consumption ☐ B Timber obtained under a forest lease.
- ☐ C Timber obtained by any mode other than under a forest lease ☐ D Any other forest produce not being timber or tendu leaves
- ☐ E Scrap ☐ F Parking lot ☐ G Toll plaza ☐ H Mining and Quarrying

(b) Please furnish information in separate Annexures as per the enclosed proforma for each type of collection indicated in item (a) above.

4. Details of tax collected and paid to the credit of the Central Government

S No.	Collection Code as per Sl. No. 3 above	TCS Rs.	Surcharge Rs.	Education Cess Rs.	Interest Rs.	Others Rs.	Total tax deposited Rs. (3+4+5+6+7)	Cheque/DD No. (if any)	BSR Code	Date on which Tax deposited	Transfer voucher / Challan serial No. ²	Whether TCS deposited by book entry? Yes/No ³
(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Notes :-

1 Please write.

A Alcoholic liquor for human consumption

B Timber obtained under a forest lease.

C Timber obtained by any mode other than under a forest lease

D Any other forest produce not being timber or tendu leaves

E Scrap

F Parking Lot

G Toll plaza

2 Please use separate Annexures for each type of collection.

3 Please enter Buyer Code 01 for companies, 02 for 'other than companies'.

4 Where collection is made by or on behalf of the Government, transfer voucher number may be entered in column (10).

5 If necessary, please use additional sheets to give full details of collection in the above format. Please also give running serial number to all pages.

6 Write X if lower deduction is as per section 206C(9).

Write Y for any other reason, give details in separate sheet.

Signature of person responsible for collecting tax at source _____

Name and designation of person responsible for collecting tax at source

99.

(c) in Part VI-A, for rule 37E, the following rule shall be substituted, namely:—

“Prescribed returns regarding tax collected at source under Section 206C(5A)

37E. Every person collecting tax in accordance with the provisions of Section 206C shall, in respect of a financial year, deliver or cause to be delivered to the Income-tax Authority referred to in rule 37F, the return for collection of tax in Form No. 27E by the end of June following the financial year.”.

[Notification No. 124/2005/F.No. 149/87/2004-TPL]

A. SREENIVASA RAO, Under Secy. (TPL III)

Note :—The principal rules were published *vide* Notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (8th Amendment) Rules, 2005 *vide* Notification No. S.O. 441(E) dated 29th March, 2005.